



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11—मार्च 17, 2017 (फाल्गुन 20, 1938)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11—MARCH 17, 2017 (PHALGUNA 20, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	261	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	203	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	203	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 279
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 25
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 489
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	261	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	203	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	203	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	279
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	25
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	489
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2016

विषय : राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके) का गठन

सं. एस-11011/03/2016-एसबीएम—भारत सरकार ने वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन में दो उप-मिशन शामिल हैं :-

- i. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - इस मिशन का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) बनाकर तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना है। यह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है, और;
- ii. भारत मिशन (शहरी) - इस मिशन का लक्ष्य शहरी क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाकर तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना है। यह शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है।

2. स्वच्छ भारत मिशन के वित्तपोषण में वृद्धि हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट के माध्यम से सभी अथवा कुछ सेवाओं पर 2 प्रतिशत तक अथवा कम 'स्वच्छ भारत उपकर' लगाने का प्रावधान किया है।

3. इस प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 06 नवंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 22/2015-सेवा कर के माध्यम से सेवा कर योग्य सभी सेवाओं पर दिनांक 15.11.2015 से 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर लगाया है।

4. स्वच्छ भारत उपकर से प्राप्त राशि के लिए भारत के सार्वजनिक खाते के गैर-ब्याज खंड में एक समर्पित, गतावधि न होने वाली निधि गठित की गई है, जो प्रमुख शीर्ष '8235-सामान्य एवं अन्य रक्षित निधियाँ' के अंतर्गत नए लघु शीर्ष नामतः 'राष्ट्रीय स्वच्छ कोष' के अंतर्गत जमा होगी।

5. राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके) में जमा राशि का विभाजन 80/20 के अनुपात में क्रमशः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) इन दो उप मिशनों के बीच किया जाएगा।

6. उपकर की प्राप्ति को 'राष्ट्रीय स्वच्छता कोष' में अंतरित किया जाएगा और उसका उपयोग संसद द्वारा विनियोजित प्राधिकरण द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा-निर्देशों और घटकों के अनुसार किया जाएगा।

7. उपकर की प्राप्तियों को आरएसके में अंतरित करने की लेखा-प्रक्रिया लेखा महानियंत्रक एवं शहरी विकास मंत्रालय के परामर्श से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी।

8. आरएसके के व्यय की निगरानी संबंधित मंत्रालयों (पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय) की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से की जाएगी। आरएसके के खातों की आंतरिक और वित्तीय लेखा परीक्षा की जाएगी।

9. राष्ट्रीय स्वच्छता कोष का गठन इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन से प्रभावी होगा।

निपुण विनायक
निदेशक

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

New Delhi, the 11th February 2016

Subject: Setting up of Rashtriya Swachhata Kosh (RSK)

No. S-11011/3/2016-SBM—The Government of India launched the “Swachh Bharat Mission” on 2nd October 2014 with the aim to achieve Swachh Bharat by 2nd October, 2019. The Swachh Bharat Mission consists of two Sub-Missions;

- (i) Swachh Bharat Mission (Gramin)—The thrust of this Mission is to improve the levels of cleanliness in rural areas by making Gram Panchayats Open Defection Free (ODF) and through Solid and Liquid Waste Management activities. This is being administered by Ministry of Drinking Water and Sanitation, Government of India and;
- (ii) Swachh Bharat Mission (Urban)—The thrust of this Mission is to improve the levels of cleanliness in urban areas by making urban areas Open Defection Free (ODF) and through Solid Waste Management activities. This is being administered by Ministry of Urban Development, Government of India and;

2. In order to augment the resources for financing the Swachh Bharat Mission, the Government of India made an enabling provision to levy Swachh Bharat Cess @ of up to 2% or less on all or certain services in the Union Budget of 2015-16.

3. Pursuant to this enabling provision, the Government of India, vide its Notification No. 22/2015-Service Tax, dated 6th November, 2015 levied Swachh Bharat Cess at the rate of 0.5 per cent with effect from 15.11.2015, on all services that were liable to Service Tax.

4. A dedicated non-lapsable fund is constituted in the non-interest bearing section of Public Account of India under the new minor head with the nomenclature ‘Rashtriya Swachhata Kosh’ below the Major Head ‘8235-General and other Reserve Funds’ for crediting the proceeds of Swachh Bharat Cess.

5. The funds accruing into Rashtriya Swachhata Kosh (RSK) will be distributed between the two Sub-Missions i.e. Swachh Bharat Mission (Gramin) and Swachh Bharat Mission (Urban) in the ratio of 80:20 respectively.

6. The proceeds of Cess thus transferred to the ‘Rashtriya Swachhata Kosh’ will be utilized as per the guidelines and components of Swachh Bharat Mission (Gramin) and Swachh Bharat Mission (Urban) with due appropriation authorized by Parliament.

7. The accounting procedure for transferring the proceeds of Cess into the RSK will be formulated by the Ministry of Drinking Water and Sanitation in consultation with Controller General of Accounts and Ministry of Urban Development.

8. The expenditure from the RSK will be monitored through the Management Information System (MIS) of the respective Ministries (Ministry of Drinking Water and Sanitation and Ministry of Urban Development). The accounts of the RSK shall be subject to internal and statutory Audit.

9. The Rashtriya Swachhata Kosh is constituted with effect from the publication of this Notification in the Gazette of India.

NIPUN VINAYAK
Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in